



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 484 राँची, बुधवार

9 मई, 2018 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

8 मई, 2018

संख्या- 05/न०वि०/जला०/पेयजल निया० प्राधिकार/04/2016-2434-- झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2017) के प्रावधानों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-1664 दिनांक 10 मार्च, 2017 के द्वारा झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का गठन किया गया है ।

2. झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों (तकनीकी/प्रशासन) की नियुक्ति हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित खोज समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदधारकों की नियुक्ति की जाती है :-

क्र०सं०	पदनाम	नाम
(1)	अध्यक्ष	श्री रमेश कुमार, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।
(2)	सदस्य (प्रशासन)	श्री उपेन्द्र कुमार मुण्डा, सेवानिवृत्त प्रबंधक प्रशासन, सेल, बोकारो इस्पात संयंत्र, अधिशासी निदेशक संकाय का कार्यालय, बोकारो।

2. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।
3. उपर्युक्त नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य (प्रशासन) की सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार, अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप होंगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राहुल कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----